

प्रेस विज्ञप्ति

पटना विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह तथा NAAC Accreditation सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों का आयोजन ।

1. पटना विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह के अवसर पर पटना विश्वविद्यालय अन्तर कॉलेज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कार्यक्रम का आगाज़ आज दिनांक:07/09/2017 को मगध महिला कॉलेज के प्रांगण में रंगा-रंग कार्यक्रमों के साथ किया गया । इस कार्यक्रम का उदघाटन माननीय कुलपति प्रो० रास बिहारी प्रसाद सिंह द्वारा बैलून उड़ाकर किया गया । मौके पर पटना विश्वविद्यालय के कुलसचिव, प्राचार्या, मगध महिला कॉलेज, स्पोर्ट्स बोर्ड के अध्यक्ष एवं सेक्रेटरी समेत विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे । इस शताब्दी समारोह के अवसर पर पटना विश्वविद्यालय अन्तर कॉलेज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के तहत बास्केटबाल (महिला एवं पुरुष) तथा बैडमिंटन (महिला एवं पुरुष) टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जो दिनांक:09/09/2017 तक चलेगी । ज्ञातव्य है कि 11/09/2017 से 13/09/2017 तक कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में शतरंज (महिला एवं पुरुष) एवं टेबल टेनिस (महिला एवं पुरुष) एवं पटना साइंस कॉलेज में कबड्डी (महिला एवं पुरुष) तथा फुटबॉल (पुरुष) का आयोजन किए गया है ।

2. आज ही दिनांक: 07 सितम्बर, 2017 को माननीय कुलपति प्रो० रास बिहारी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में NAAC (National Accrediation & Accreditation Council) Co-ordinator Committee की मीटिंग Academic Council Hall में आयोजित की गई । इस अवसर पर प्रति-कुलपति-सह-NAAC Cordinator प्रो० डॉली सिन्हा, कुलसचिव तथा विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी समेत सभी स्नातकोत्तर विभाग के विभागाध्यक्षों तथा शिक्षकों को माननीय कुलपति के निर्देशानुसार NAAC समन्वयक प्रो० डॉली सिन्हा ने NAAC मूल्यांकन के सभी सातों criterion पर अपना presentation दिया और माननीय कुलपति ने इस सब criterion के लिए सात उप-समितियों का गठन किया ताकि NAAC मूल्यांकन के लिए यथाशीघ्र SSR भेजा जा सके । इस अवसर पर माननीय कुलपति ने NAAC Accreditation की आवश्यकता तथा महत्व पर प्रकाश डालते हुए विश्वविद्यालय के लिए सर्वोत्तम ग्रेड प्राप्त करने हेतु सबों को सम्मिलित रूप से कार्य करने की दिशा में आगे आने के लिए प्रेरित किया ।